

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय  
वर्ग नवम् विषय संस्कृत शिक्षक श्यामउदय सिंह  
ता:-०८-०९-२०२० (एन.सी.ई.आर.टी.पर आधारित)  
पाठ:- दशमः पाठनाम जटायोः शौर्यम्

**श्लोक ७. तस्य तीक्ष्णखाभ्याम् तु चरणाभ्याम् महाबल।**

**चकार बहुधा गात्रे व्रणान्पतगसत्तमः ॥**

शब्दार्थाः- तस्य -उसके(जटायु के) , तीक्ष्णखाभ्याम् -तेज नाखूनों से ,

चरणाभ्याम् -पैरों से , महाबलः -बहुत बलशाली ,

चकार - किया , बहुधा -बहुत से,गात्रे - शरीर पर ,

पतगसत्तमः -पक्षियों उत्तम(श्रेष्ठ) , व्रणान् -घावों को

अन्वयः - ततः पतगसत्तमः महाबलः खगः तीक्ष्णखाभ्याम्

चरणाभ्याम् च तस्य गात्रे बहुधा व्रणान् चकार।

अर्थ-

उस उत्तम तथा भाग्य शाली पक्षी (जटायु) ने अपने तीखे नाखूनों

तथा पैरों से उस (रावण) के शरीर पर बहुत से घाव कर दिए ।